

## HIN1A05a – Fiche d'exercices N° 9 – Transcription

### Exercice 1

I'm sorry papa. मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि उसके बारे में न सोचूँ, कि उससे मुहब्बत न करूँ पर ऐसा कर न सकी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा और मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकती पर मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती।

### Exercice 2

- Gracy के जाने के बाद क्रातिल अपने प्लैन के मुताबिक Sonia Cheng की लाश को बेडरूम से घसीटकर स्टडिरूम में ले आया ताकि जब राज और प्रिया हवेली में आएँ तो खून का इलज़ाम उन पर लग जाए। और यह मास्टर प्लैन बनानेवाला, वह है।

### Exercice 3

- Stupid ! वह खाना चुराकर खिसक गया। मैंने ऐसा क्यों किया ? यही सिला मिलता है जब तुम एक चूहे पर ...
- अरे हाई। यह मेरे लिए है ? Hmm अच्छा है। क्या डाला इसमें ?
- यह कहाँ से लाए ?
- देखो यह लज़ीज़ है पर चोरी नहीं। मैं मसाले ले आऊँगा OK ? Ho no, हम लेट हो जाएँगे वह भी पहले दिन।  
Come on छोटे शेफ़।

### Exercice 4

- मैंने डिफ़ेंस मिनिस्टर को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने हमारे दोस्त फ़्लाइट लफ़्टनेन्ट अजय राठौड़ की जान ली। अजय जैसे कई बहादुर पाइलटों की मौत का भी ज़िम्मेदार था। हमने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि अजय की जान लेने के बाद उसने उसके नाम का भी अपमान किया। अजय की माँ, जिन्होंने न सिर्फ अपना बेटा बल्कि अपना पति भी देश पर निछावर कर दिया, आज हॉस्पिटल में काँमा में हैं। ज़िन्दगी से जूझ रही हैं। डिफ़ेंस मिनिस्टर देश की रक्षा के लिए होता है, इसने देश को बेच दिया। कौन रोकेगा इन्हें ? क़ानून ? क़ानून तो ये लोग तोड़-मरोड़के हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। हमने डिफ़ेंस मिनिस्टर शास्त्री को इसलिए मार डाला क्योंकि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी हमारी आँखों के सामने वह साफ़-साफ़ बच निकल रहा था।

### Exercise 5

- मगर किसीने सच नहीं कहा। क्योंकि सभी के दिल में चोर था। खून शनिवार की रात साढ़े ग्यारह और डेढ़ के बीच हुआ। और यहाँ खड़े सभी लोग इस खून से कहीं न कहीं कनेक्टड हैं। इसका मतलब खून आप में से किसी एक ने किया है। और खून करके लाश को बाग में डालकर रास्ते पे छोड़ दिया।

### Exercise 6

- एक बात पूछें ?

- हैं।

- क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है ?

- सचमुच जवाब चाहिए ? मैंने उनको अभी तक देखा भी नहीं।

- फिर शादी क्यों कर रही हो ?

- समझ लो उनसे नहीं कर रही।

- मतलब ?

- सेक्युरिटी से कर रही हूँ। और .. माँ-बाप अभी खुश हो जाएंगे। और कितनी बार उनका दिल दुखाऊँगी, बोलो।

- माँ-बाप, मतलब तुम खुश नहीं हो।

- यह मैं आज कैसे कह सकती हूँ मन्ना।

### Exercise 7

- चलिए न, हम शुरू करते हैं। मैं Samya Sidiqqi हूँ, और आप ? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको औरों की तरह सात सौ छियासी पुकारूँ ? आपका नाम इतना बुरा भी नहीं हो सकता कि आप एक नम्बर से पहचान बेहतर समझे। Vir Pratap Singh, अरसे बाद अपना नाम सुन रहे हैं न। Vir Pratap Singh मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। बाईस साल पहले आप खामोश हैं और कोई आपको defend नहीं कर पाया। आज खुदा आपको दूसरा मौका दे रहा है, मुझसे बात कीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपके हिन्दुस्तान पहुँचा दूँगी।

Please talk to me, please.